



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 107]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2001/फाल्गुन 1, 1922

No. 107]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2001/PHALGUNA 1, 1922

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2001

का.आ. 151(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2150, तारीख 27 सितम्बर, 2000 द्वारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में रणासण टी पॉइंट से श्याम इंडस्ट्रीज तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रयोजन हेतु उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र में अधिसूचना की प्रतिया 20 अक्टूबर, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उसके उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

और आगे केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दे देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लगमों से मुक्त गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
गाँधी नगर	गाँधीनगर	रणासण	130	00-07-05
			129	00-04-20
			128	00-23-28
			127	00-14-14
			झेन	00-02-25
			योग	00-50-92
अहमदाबाद	डस्करोड़	मुठिया	234	00-14-70
			योग	00-14-70

[फा. सं. एल-14014/09/00-जी.पी.]

सुनील कुमार सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2001

S.O. 151 (E).— whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 2150 dated the 27th September, 2000, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of natural gas from Ranasan T-point to Shyam Industries in the State of Gujarat by the Gas Authority of India Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 20th day of October, 2000;

And whereas, the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has , after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area In Hectare
Gandhinagar	Gandhinagar	Ranasan	130	00-07-05
			129	00-04-20
			128	00-23-28
			127	00-14-14
			DRAIN	00-02-25
			TOTAL	00-50-92
Ahmedabad	Daskroi	Muthiya	234	00-14-70
			TOTAL	00-14-70

[F. No. L-14014/09/00-GP]

S. K. SINGH, Under Secy.

